



**1-घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का वांछित आरोपी गिरफ्तार,थाना बिलारी:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 20.07.2022 को वादिनी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दी तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-0316/2022 धारा-452/376/506 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त के संबंध में आज दिनांक 21.07.2022 को व0उ0नि0 श्री रामनरेश यादव थाना बिलारी ने मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्त सचिन पुत्र राजेंद्र ग्राम बकैनिया चांदपुर थाना बिलारी,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

**2-अवैध तमंचे सहित आरोपी गिरफ्तार,थाना ठाकुरद्वारा:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 21.07.2022 को व0उ0नि0 श्री दिनेश उपाध्याय थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिसबल के आरोपी इकराम पुत्र जाकिर निवासी ग्राम रामनगर खागूवाला थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-365/22 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

**3-चोरी करने के प्रकाश में आये 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन्स:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2022 को वादी जयवर्धन सिंह पुत्र स्व0 चमन सिंह निवासी एमडीए कालोनी हाल तैनाती केन्द्रीय नाजिर,न्यायालय मुरादाबाद ने अज्ञात चोर द्वारा न्यायालय परिसर के फाईटिंग सिस्टम का ताला तोड़कर दो हौज पाइप व एक पीवीसी पाईप मय नोजल व 18 पीवीसी पाईप के पीतल से नोजल चोरी कर ले जाने के संबंध में दी तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स में मु0अ0सं0-576/2022 धारा-457/380 भादवि0 पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में आज दिनांक 21.07.2022 को उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना सिविल लाइन्स द्वारा मह हमराही पुलिस बल के आरोपीगण 1. जमशेद आलम पुत्र स्व0 अब्दुल हाल निवासी करूला जयन्तीपुर मोड के पास थाना कटघर,मुरादाबाद 2. जिशान पुत्र शकील निवासी चक्कर की मिलक थाना सि0ला0, मुरादाबाद को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।